

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असा 129

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 449] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 16, 1970/अग्रहायण 25, 1892

No. 449] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 16, 1970/AGRAHAYANA 25, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

ORDER

IMPORT-TRADE CONTROL

New Deum, the 16th December 1970

S.O. 3942.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Imports (Control) Order, 1955, namely:—

1. This Order may be called the Imports (Control) Seventh Amendment Order, 1970.

2. In the Imports (Control) Order, 1955,—

(1) the clause 2(aaa) shall be substituted by the following, namely:—

“Chief Controller of Imports and Exports” includes a Joint Chief Controller of Imports and Exports, a Deputy Chief Controller of Imports and Exports and a Deputy Iron and Steel Controller.

(2) In clause 9, the words “or the Development officer (Tools), the Development Wing” appearing after the words “the Chief Controller of Imports and Exports” shall be deleted.

(3) the clause 10E shall be substituted by the following, namely:—

“10E. Power of Deputy Iron and Steel Controller.—The powers exercisable under clauses 8, 8A or 10C shall also be exercisable by the Deputy Iron and Steel Controller, against a licensee or importer or any other person in relation to goods licensable by the Deputy Iron and Steel Controller, that is to say, Iron and Steel and Ferro-alloys.”

(1953)

(4) the existing Schedule II shall be substituted by the following namely:—

SCHEDULE II

(See clause 3)

Officers Competent to Grant Import Licences

- | | |
|--|--|
| 1. The Chief Controller of Imports and Exports. | } For any goods covered by Part I to VI of Schedule I. |
| 2. A Joint Chief Controller of Imports and Exports. | |
| 3. A Deputy Chief Controller of Imports and Exports. | |
| 4. A Controller of Imports and Exports. | |
| 5. Any Officer authorised by the Central Government for any goods described in Schedule I. | |
| 6. A Deputy Iron and Steel Controller. | } For Iron and Steel and Ferro Alloys. |
| 7. An Assistant Iron and Steel Controller. | |
| 8. A Deputy Assistant Iron and Steel Controller. | |
| 9. Controller of Imports and Exports, New Kandla. | |
- (in so far as Kandla Free Trade Zone is concerned).

[No. 10/70.]

R. J. REBELLO,

Chief Controller of Imports and Exports.

विदेश व्यापार संज्ञासूचक

आयात

आयात व्यापार नियंत्रक

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर 1970

एस० प्रो० 3942.—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) की धारा 3 द्वारा प्रस्तुत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात् :-

1. इस आदेश का आयात (नियंत्रण) सातवा संशोधन आदेश, 1970 की संज्ञा दी जाए।
2. आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 में

(1) धारा 2 (ए ए ए) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् —

“मुख्य नियंत्रक आयात तथा निर्यात” में एक संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात एक उप-मुख्य नियंत्रक, आयात - निर्यात तथा उप नियंत्रक लोहा तथा इस्पात शामिल हैं,

(2) धारा 9 में शब्द “मुख्य नियंत्रक आयात तथा निर्यात” के बाद दिखाए गए शब्द “अथवा विकास अधिकारी (प्रौजार) विकास स्कन्ध” हटाए जाएंगे।

(3) धारा 10ई निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“10 ई उप नियंत्रक लोहा तथा इस्पात के अधिकार.—धारा 8, 8ए अथवा 10 सी के अन्तर्गत प्रयोज्य अधिकार, उप-नियंत्रक लोहा तथा इस्पात द्वारा लाइसेंसधारी अथवा आयातक अथवा अन्य किसी व्यक्ति के विपरीत उप नियंत्रक लोहा तथा इस्पात द्वारा लाइसेंस दिए जाने योग्य मदों के सम्बन्ध में जैसे कि लोहा तथा इस्पात तथा फैरो-अलाय के लिए भी प्रयोज्य होंगे।

